

विशेष रिपोर्ट

बेस मेटल

सितम्बर 2021




तांबा • निकल • लेड • जिंक • एल्युमीनियम




Moneywise. Be wise.

अगस्त 2021 में, बेस मेटल में मिले-जुले रुझान के साथ कारोबार हुआ क्योंकि तांबा और निकल ने नरमी के रुझान के साथ कारोबार किया, जबकि जिंक और लेड ने नरमी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार किया, लेकिन एल्युमीनियम ने सभी एक्सचेंजों में अच्छी बढ़त के साथ कारोबार किया। अगस्त महीने में एशिया और यूरोप की फैक्ट्री गतिविधियों की रफ्तार कम हो गई लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की फैक्ट्री गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। चीन में करीब डेढ़ साल में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग में कमी दर्ज की गई है। कोविड-19 के डेल्टा संस्करण ने आर्थिक सुधार के बारे में वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस बीच, चीन के राज्य भंडार प्रशासन ने दूसरे चरण में बाजार में 150,000 टन तांबा, एल्युमीनियम और जिंक जारी किया, जिससे धातु की कीमतों में कुछ गिरावट हुई। ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक अपनी बॉन्ड खरीदारी को कम करने की योजना पर अड़ा हुआ है, लेकिन उसने कहा कि वह समयसीमा को बढ़ाएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था कोरोनावायरस लॉकडाउन से जूझ रही है। कई फेडरल रिजर्व नीति निर्माताओं ने संकेत दिया कि अगस्त में नौकरियों की वृद्धि में सुस्ती और कोविड-19 मामलों में फिर से बढ़ोतरी के प्रभाव के बावजूद अमेरिकी केंद्रीय बैंक इस साल अपनी भारी संपत्ति खरीद को कम करने की ओर अग्रसर है। नीतियों में किसी भी सख्ती होने से महामारी से उबरने की गति धीमी हो सकती है।



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स




स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर मेटलडेक्स पिछले सप्ताह बढ़कर 16482 पर बंद हुआ है। अब तत्काल रेजिस्टेंस 16600 के आसपास देखा जाता है और सपोर्ट 15900 के आसपास है। यदि कीमत 16600 से ऊपर बनी रहती है तो बहुत जल्द 16700/16900 की ओर तेजी देखी जा सकती है। 15900 से नीचे बने रहने पर 15500-15300 की ओर नीचे की ओर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर इंडेक्स के अपने समर्थन स्तर से ऊपर ही रहने की उम्मीद है।

- स्टेनलेस स्टील मिलों और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माताओं की ओर ये अच्छी मांग आने वाले महीनों में निकल की कीमतों को मदद मिलने की संभावना है, लेकिन शीर्ष उत्पादक इंडोनेशिया से आपूर्ति बढ़ने से अगले साल कीमतों पर दबाव रहने की संभावना है।
- बाढ़, श्रमिक हड़तालों और मई के अंत से नागरीक आंदोलनों में बढ़ोतरी के कारण निकल उत्पादन में व्यवधान हुआ है, और इस समय में स्टेनलेस स्टील की मांग बढ़ी है।
- शीर्ष पांच प्राथमिक निकल उत्पादकों के उत्पादन में दूसरी तिमाही में साल दर साल 24.1% की गिरावट हुई है, जो श्रम विवादों से लेकर रखरखाव और बाढ़ के कारण उत्पादन में बाधाओं के कारण हुई है।
- पिछले महीने के दौरान चीन और इंडोनेशिया दोनों में निकल पिग आयरन (एनपीआई) की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही मांग में कमी आने की संभावना है।
- रूस स्थित नोरिलस्क निकल ने जून तिमाही में उत्पादन में साल-दर-साल 43.3% की गिरावट दर्ज की, फिर भी विश्व में प्राथमिक निकल के उत्पादन में नंबर 1 रैंकिंग बनाए रखी है।
- नॉर्निकेल ने नई तकनीक के द्वारा अपशिष्ट उत्पादों से अतिरिक्त धातुएं निकाली हैं। बाढ़ की चपेट में आई आर्कटिक खदानों से 2021 में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक का परीक्षण किया गया था।



स्रोत: किटको मेटल


एमसीएक्स में निकल का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर निकल वायदा पिछले सप्ताह 1540.20 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 50 ईएमए स्तर 1430 से और 200 ईएमए स्तर 1350 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। साप्ताहिक ऑसिलेटर एमएसीडी 1460 की रेंजिस्टेंस रेखा से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो तेजी के रूझान वाले क्रॉसओवर को देख रहा है। काउंटर में खरीदारी फिर से देखी जा सकती है यदि यह 1500 के स्तर से ऊपर कारोबार करना जारी रखता है, जो काउंटर को क्रमशः 1560/1600 की ओर जा सकता है। यदि यह 1430 स्तर से नीचे टूटता है और अल्पावधि आधार में 1400/1380 के स्तर की ओर नीचे की ओर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर निकल की कीमतों के अपने सपोर्ट स्तर से और ऊपर जाने की उम्मीद है।

- पिछले महीने एमसीएक्स और एलएमई में लेड की कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एसएचएफई में कीमतें 5% से अधिक लुढ़क गई है।
- एलएमई-पंजीकृत गोदामों में बैटरी मेटल लेड के कम स्टॉक और एलएमई वारंट और नकद कॉन्ट्रैक्टों की बढ़ी होल्डिंग ने धातु की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
- एलएमई-पंजीकृत गोदामों में 52475 टन लेड भंडार है जो जुलाई 2019 के बाद सबसे कम है
- इस साल लेड बैटरियों की वैश्विक मांग बढ़ गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद अधिक कारों सड़कों पर लौट आई है।
- चीनी उत्पादकों ने वर्ष के पहले सात महीनों में रिफाईंड लेड उत्पादन में 18.6% की वृद्धि हुई है जो स्पष्ट रूप से घरेलू बैटरी क्षेत्र की मांग की ताकत के अनुकूल नहीं है।
- इसके विपरीत, शेष विश्व में लेड की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) का लेड बाजार भारी कमी का सामना कर रहा है।
- नवीनतम व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि चीन ने जुलाई महीने केवल 245 टन रिफाईंड लेड का निर्यात किया है। इसका अधिकांश हिस्सा ताइवान को निर्यात किया गया था, लेकिन काऊशुंग बंदरगाह पर एलएमई गोदामों को नहीं, जहां मार्च के बाद से कोई नया वारंट नहीं देखा गया है।
- असल में इस साल के पहले सात महीनों में चीन मात्र 176 टन रिफाईंड लेड का शुद्ध आयातक रहा है।



एमसीएक्स में लेड का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर लेड वायदा पिछले हफ्ते 188.55 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 18 दिनों के ईएमए स्तरों 176.74 से ऊपर कारोबार करने की क्षमता के साथ ही मोमेंटम ऑसिलेटर स्टोकेस्टिक (14,3,3) अब सकारात्मक विचलन देख रहा है और छोटी से मध्यम अवधि के लिए तेजी का रुझान भी प्रदान कर रहा है। 50 दिनों का ईएमए उच्च स्तर पर बना हुआ है और आरएसआई 14 भी 64.50 से ऊपर कारोबार कर रहा है जो छोटी अवधि के आधार पर खरीदारी का संकेत देता है। इसलिए कुल मिलाकर लेड की कीमतें अपने सपोर्ट स्तरों से ऊपर जाने की उम्मीद कर रही है। अब 192 पर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस देखा जा रहा है, इस स्तर से ऊपर स्थायी कारोबार करने पर इस महीने में 195/200 की ओर तेजी देखी जा सकती है और यदि कीमतें 180 के स्तर के सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती हैं तो 170 एवं 165 की ओर क्रमशः नीचे तक जा सकती है।

- एलएमई और एमसीएक्स पर एल्युमीनियम की कीमतों में लगभग 3.5% की अच्छी बढ़त दर्ज की गई और एसएचएफई में 7% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
- चीन में मजबूत मांग और बिजली के मुद्दों के कारण उत्पादन में कटौती से इस साल अगस्त के अंत तक सभी एक्सचेंजों में 32% से अधिक बढ़त के साथ एल्युमीनियम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बेस मेटल है।
- चीन, जमैका, कनाडा और अब गिनी में आपूर्ति के मुद्दों को लेकर बार-बार आने वाली खबरों से एल्युमीनियम की कीमतों को बढ़ावा मिला है।
- चीन के झिजियांग क्षेत्र ने अवैध उत्पादन पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत इस महीने से पांच एल्युमीनियम स्मेल्टरों पर उत्पादन सीमा लागू कर दी है, जिससे शंघाई में एल्युमीनियम की कीमतें 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।
- गाइना से प्राप्त एल्युमीनियम अयस्क बॉक्साइट की कीमतें शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में लगभग 18 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई क्योंकि खरीदार पश्चिम अफ्रीकी देश में तख्तापलट के बाद आपूर्ति के बारे में चिंतित थे, लेकिन किसी भी खदान ने किसी व्यवधान की सूचना नहीं दी।
- चीन के सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में कच्चे एल्युमीनियम और उत्पादों का चीन से निर्यात 490,286 टन हुआ है, जो मार्च 2020 के बाद से साल-दर-साल 24% की उछाल और जुलाई से 4.5% की बढ़त के साथ सबसे अधिक है।




एमसीएक्स में एल्युमीनियम का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर एल्युमीनियम वायदा पिछले हफ्ते बढ़कर 230.95 पर बंद हुआ। पिछले कुछ महीनों से, कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। अब कीमतें 18 दिनों के मूविंग एवरेज 210 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। 200 का छोटी से मध्यम अवधि का चैनल रोजिस्टेंस पहले ही टूट चुका है और अब कीमतें 18 दिनों के मूविंग एवरेज 210 के स्तर से ऊपर है। अब अगला तत्काल रोजिस्टेंस 235 पर है, और 235 के स्तर से ऊपर बने रहने की स्थिति में 240/243 की ओर अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। यदि यह 210 की तत्काल सपोर्ट स्तर से नीचे टूटती है तो यह क्रमशः 200/195 की ओर नीचे की ओर बढ़ सकती है। कुल मिलाकर एल्युमीनियम की कीमतों के अपने सपोर्ट स्तर से और ऊपर जाने की उम्मीद है। इसलिए हम मौजूदा माह में गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह देते हैं।

- अगस्त में, एसएचएफई और एमसीएक्स में जिंक की कीमतें लगभग सपाट रही जबकि एलएम्ई की कीमतें लगभग 1.5% फिसल गई।
- इस साल के शेष दिनों में सरप्लस में गिरावट, स्मेल्टिंग सहित आपूर्ति में बाधा, चीन की ओर से मांग और विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण वैश्विक बाजार में जिंक की कीमतों में तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है।
- कोविड-19 लॉकडाउन से आर्थिक विकास को हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीनी अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन उपायों से जिंक और स्टील की मांग में वृद्धि हुई है। इस साल वैश्विक स्तर पर जिंक की मांग करीब 1.4 करोड़ टन रहने का अनुमान है।
- अगस्त 2021 में चीन में जिंक जस्ता उत्पादन 508900 मिलियन टन रहा, जो मासिक आधार पर 1.22% या 6300 मिलियन टन और वार्षिक आधार पर 0.04% कम था।
- जनवरी-अगस्त में कुल उत्पादन 4.042 मिलियन टन हुआ, जो साल-दर-साल 4.47% की वृद्धि हुई है।
- चीन के घरेलू जिंक स्मेल्टरों ने अगस्त में 75,500 मिलियन टन मिश्र धातु का उत्पादन किया था, जो मासिक आधार पर 80 मिलियन टन अधिक है। इस महीने में घरेलू जिंक उत्पादन में वास्तविक कमी उम्मीद से कम थी।
- उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण यह था कि गुआंगशी और युन्नान में बिजली प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप उत्पादन उम्मीदों से कम हो गई है।
- शंघाई और लंदन दोनों में जिंक भंडार में गिरावट हुई है और बाजार की नजर सितंबर और अक्टूबर में मौसमी अधिक मांग पर है।



स्रोत: किटको मेटल


एमसीएक्स में जिंक का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर जिंक वायदा पिछले सप्ताह कम होकर 255.10 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 200 दिनों के ईएमए स्तर 230.00 से ऊपर और साप्ताहिक स्तर पर बढ़ती रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन स्तर 240 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। लंबी अवधि में केवल तेजी का रूझान है और हमने देखा है कि पिछले महीने में कीमतों में थोड़ी गिरावट के बावजूद भी 240 से ऊपर बनी हुई है। यदि कीमतें 242 के स्तर से नीचे बनी रहती है, तो नीचे की ओर 235/230 की ओर लुढ़क सकती है और यदि यह 252 के स्तर से ऊपर रहती है और स्थिर बनी रहती है, तो क्रमशः 262/270 की ओर बढ़ जाएगी।

- तांबे का उपयोग अक्सर वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य के मापक के रूप में किया जाता है। मौद्रिक नीति के सख्त होने, मैनुफैक्चरिंग गतिविधियों में सुस्ती, चीन से कम आयात और एलएमई गोदाम में बढ़ती भंडार की आशंकाओं के बीच डॉलर के मजबूत होने के कारण एमसीएक्स में तांबे की कीमतों में 5% से अधिक की गिरावट हुई।
- उपग्रह निगरानी के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर तांबा गलाने की गतिविधि अगस्त में कम हो गई क्योंकि संयंत्रों ने मुख्य रूप से रखरखाव बंद कर दिया, जबकि बाढ़ और बिजली प्रतिबंधों का भी प्रभाव पड़ा।
- शीर्ष तांबा उपभोक्ता चीन में हाल ही में बाढ़ के कारण दक्षिण मध्य क्षेत्र में कुछ संयंत्रों ने स्मेल्टिंग की गतिविधियों को कम कर दिया था जबकि चीनी स्मेल्टर अधिक व्यापक रूप से बिजली प्रतिबंधों से प्रभावित थे।
- चिली के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर तांबे की उच्च कीमतों के बीच अगस्त में चिली के तांबे का निर्यात मूल्य के हिसाब से एक साल पहले की तुलना में 40.5% बढ़ गया।
- चीन के सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार चीन का तांबे आयात अगस्त में साल-दर-साल 41% कम हो गया, जो लगातार पांचवें महीने कम होकर 394,017 टन हो गया।
- चिली के सरकारी स्वामित्व वाले तांबा उत्पादक कोडेलको ने अपने एल टेनिएंटा डिवीजन में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के साथ एक अंतिम श्रम समझौते पर हस्ताक्षर करके हड़ताल की कार्रवाई के खतरे को हटा दिया है।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तांबे की बिक्री 2021 की पहली छमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10% बढ़ी है।



स्रोत: किटको मेटल

एमसीएक्स में तांबा का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर तांबा वायदा पिछले सप्ताह बढ़कर 741.15 पर बंद हुआ है। अब कीमतें 735 के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छी तरह से बनी हुई हैं और पिछले महीने से गिरावट हो रही है। अब तत्काल रेजिस्टेंस 748 पर है। यदि कीमतें 748 की तत्काल रेजिस्टेंस से ऊपर बनी रहेगी तो यह 760/770 की ओर बढ़ सकती है और यदि कीमतें 711 के पहले सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती है, तो निकट भविष्य में नीचे की ओर 695/685 के स्तर की ओर बढ़ सकती है। कुल मिलाकर कमोडिटी के अपने सपोर्ट स्तर से और ऊपर जाने की उम्मीद है।

For any queries, Contact:
 Commodity Research Desk
 Tel: +91-11-30111000, Ext: 683,684,625,630

SMC Research also available on Reuters

E-mail: smc.care@smcindiaonline.com



Corporate Office:
 11/6B, Shanti Chamber,
 Pusa Road, New Delhi - 110005
 Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
 Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
 Graham Firth Steel Compound, Off Western
 Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
 (East) Mumbai - 400063
 Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
 5th Floor, Kolkata-700001
 Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
 Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिट्टेड नेशनल कमांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल(CDSL) एवं एनएसडीएल(NSDL)के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई(AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्बोरिटीज मार्केट/कमांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एल्टर द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सलाह की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारन्टी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ)समय-समय पर किसी भी कमांडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमांडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमांडिटीज को किसी भी प्रकार के सौतों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।